



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, 20, 2001 (पौष 30, 1922)  
No 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 20, 2001 (PAUSA 30, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4 [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय

मुंनई-400021, दिनांक 8 दिसम्बर 2000

संदर्भ सं० पी : आईआर : एएएएच : 1174—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 का उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार का पूर्व मंजूरी से, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

- (1) ये विनियम बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 कहलाएंगे।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 विनियम 19 के उप-विनियम (1) के स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित परतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्

“अतः जिन अधिकारी कर्मचारी की जन्म-तिथि महीने की पहली तारीख का है वह सेवा-निवृत्ति की आयु पर पहुँचने पर पूर्ववर्ती महीने के अंतिम दिन अपर हू को सेवा-निवृत्त होगा।”

पाद टिप्पणी : उपर्युक्त विनियमों में पहले किए गए संशोधन नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रकाशित किए गए थे :-

अधिसूचना सं० 20, दिनांक 17 मई 1997।

एम० वेणुगोपासन  
सहायक महाप्रबंधक  
(औद्योगिक संबंध)

साधारण सूचना

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2000

खि० III/IV/147/2000—होमियोपैथी : केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अधिन रखे गए होमियोपैथी

के केन्द्रीय रजिस्ट्रार (2 जनवरी 1993 को प्रकाशित) के भाग 1 और 2 में अंतर्निहित सभी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों को इसके द्वारा यह साधारण सूचना दी जाती है कि उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए होमियोपथ केन्द्रीय परिषद् (रजिस्ट्रारकरण) विनियम, 1982 के विनियम 9(1) में यथा उपबन्धित उक्त रजिस्ट्रार में अपने नाम बसाए रखने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन करना होगा।

आवेदन के विहित प्रारूप सहित साधारण सूचनाएं प्रत्येक ऐसे व्यवसायी को, उक्त रजिस्ट्रार में दर्ज उसके पते पर डाक

प्रमाणपत्र के अधीन भेजी जा रही हैं। रजिस्ट्रार में नाम बसाए रखने के प्रारूप-व में आवेदन इस सूचना के जारी किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर सम्यक् रूप से भर कर मुझे लौटा दिया जाना चाहिए। जोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी जिसे डाक द्वारा प्रारूप प्राप्त नहीं हुआ है रजिस्ट्रार के कार्यालय से उसे प्राप्त कर सकता है।

डा० ललित वर्मा

रजिस्ट्रार

केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद्

## BANK OF INDIA

### HEAD OFFICE

Mumbai-400021, the 8th December, 2000

Ref. No. P : IR : SAH : 1174.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with Sub-Section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—

#### 1. Short Title and Commencement :

(1) These Regulations may be called Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. In the Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979, after explanation to Sub-Regulation (1) of Regulation 19, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that an Officer employee whose date of birth is on the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of retirement.”

Foot Note :—The amendments carried out earlier in the above Regulations were published in the Official

Gazette as per details given below :—

Notification No. 20 dated 17th May, 1997.

M. VENUGOPALAN  
Assistant General Manager  
(Industrial Relations)

### ‘GENERAL NOTICE’

New Delhi, the 26th December 2000

Alvt. III/IV/147/2000.—General Notice is, hereby, given to all the Registered Practitioners included in Parts I and II of the Central Register of Homoeopathy (published on 2nd January, 1993) maintained under the Homoeopathy Central Council Act, 1973 that they have to make an application to the Registrar for continuance of their names on the said Register as provided in Regulation 9 (1) of the Homoeopathy Central Council (Registration) Regulations, 1982, framed under the said Act.

Individual notices alongwith the prescribed form of application are being sent under certificate of posting to every such Registered Practitioner to the address entered in the said Register. An application in Form-F for continuation of the name in the Register should be returned to the undersigned duly completed within 30 days of the issue of this notice. Any Registered Practitioner not receiving the Form by post may obtain it from the office of the Registrar.

Dr. LALIT VERMA  
Registrar  
Central Council of Homoeopathy